

## @Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य-15.02.2021

थाना कलान पुलिस को मिली कामयाबी

अवैध देशी रायफल व तमन्चा मय 04 अदद कारतूस के 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अवैध शस्त्रों पर प्रभावी रोकथाम व अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्री संजीव कुमार बाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री वृहम्मपाल सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन में व श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी थाना कलान के कुशल नेतृत्व में थाना कलान पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

दिनांक 14/15.02.2021 की रात्रि को थाना कलान पुलिस टीम थाना क्षेत्र मे कानून व्यवस्था बनाये रखने व तलाश वांछित अपराधी मे भ्रमणशीलता के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय करीब 3.50 बजे प्रातः ग्राम मोती नगला से करीब 100 मीटर पहले अभियुक्तगण 1. आदेश कुमार पुत्र तिखई सिंह निवासी ग्राम बटन नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर 2. मुकेश पुत्र तिखई सिंह निवासी ग्राम बटन नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर को 01 अदद रायफल 315 बोर व 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना कलान पर 1. मु0अ0सं0 53/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम आदेश उपरोक्त 2. मु0अ0सं0 54/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम मुकेश उपरोक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. आदेश कुमार पुत्र तिखई सिंह निवासी ग्राम बटन नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर
2. मुकेश पुत्र तिखई सिंह निवासी ग्राम बटन नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

### बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद रायफल 315 बोर व
2. एक अदद तमन्चा 315 बोर व
3. 04 अदद जिन्दा कारतूस

### अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 53/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम आदेश
2. मु0अ0सं0 54/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम मुकेश

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह प्रभारी थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 महीपाल सिंह कलान जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 पंकज चौधरी कलान जनपद शाहजहाँपुर।
4. एचसी 224 आरजू खान कलान जनपद शाहजहाँपुर।
5. एचसी 204 अमित दुबे कलान जनपद शाहजहाँपुर।
6. कां0 1158 शीलेन्द्र कलान जनपद शाहजहाँपुर।
7. का0 2107 रिकू चौहान कलान जनपद शाहजहाँपुर।

